

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24012025-260457
SG-DL-E-24012025-260457असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]	दिल्ली, सोमवार, जनवरी 20, 2025/पौष 30, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 356
No. 25]	DELHI, MONDAY, JANUARY 20, 2025/PAUSHA 30, 1946	[N. C. T. D. No. 356

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 जनवरी, 2025

फा. सं. 1/60/2024-न्यायिक/अधी.विधि/66-69.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 20 जून, 1994 की एसओ संख्या 457 (ड) के साथ पठित दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की धारा 38क में निहित प्रावधान के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एतद् द्वारा जिला न्यायाधीश न्यायालय-01 और जिला न्यायाधीश न्यायालय-02, मध्य जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मध्य जिला (न्यायिक) से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 38 के अन्तर्गत अपीलों पर कार्यवाही करने के लिए अतिरिक्त किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के रूप में नामित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रीतेश सिंह, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 20th January, 2025

F. No. 1/60/2024-Judl./Suptlaw/66-69.—In pursuance of the provision contained in Section 38A of the Delhi Rent Control Act, 1958 read with S.O. No. 457(E) dated 20th June, 1994 issued by Ministry of Home Affairs, Govt. of India, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi in consultation with the Hon'ble the Acting Chief Justice of the High Court of Delhi, is pleased to designate the Courts of District Judge-01 and District Judge-02, Central District, Tis Hazari Courts, Delhi as Additional Rent Control Tribunals for dealing with appeals under Section 38 of the said Act, pertaining to the Central District (Judicial) of the National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

REETESH SINGH, Pr. Secy.